



VRL/SEC/EXCHANGE

06.09.2019

National Stock Exchange of India Ltd.
5th Floor, Exchange Plaza
Bandra (E),
Mumbai- 400 051
Script Code: VENUSREM

BSE Limited
25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai
Script Code: 526953


Sub.: Announcement under Regulation 30 (LODR)-Newspaper Publication

Dear Sir/ Madam,

Pls find enclosed herewith Newspaper Publication of AGM notice.

Thanking you.

for VENUS REMEDIES LIMITED


Neha Kodan
Company Secretary

VENUS REMEDIES LIMITED

Corporate Office :

51-52, Industrial Area, Phase- I, Panchkula (Hry.) 134113, India

Regd. Office :

SCO 857, Cabin No. 10, 2nd Floor, NAC, Manimajra,
Chandigarh (U.T.) 160101, India

Website : www.venusremedies.com

Unit-I :

51-52, Industrial Area, Phase-I, Panchkula (Hry.) 134113, India
Tel. : +91-172-3933094, 3933090, 2565577, Fax : +91-172-2565566

Unit-II :

Hill Top Industrial Estate, Jharmajri EPIP, Phase-I, (Extn.),
Bhatoli Kalan, Baddi (H.P.) 173205, India

Tel. : +91-1725-222122, 222121, 222125, Fax : +91-1725-251272

SRG HOUSING FINANCE LIMITED
321, S.M. Lodha Complex, Near Shastri Circle, Udaipur (Rajasthan)-313001 CIN: L65922R1999PLC015440
Website: www.srghousing.com email: info@srghousing.com phone no: 0294-2561882, 2412609

NOTICE OF 20TH ANNUAL GENERAL MEETING AND BOOK CLOSURE
Notice is hereby given that 20th Annual General Meeting of the members of the Company will be held on Monday, 30th September, 2019 at 12:15 pm at The Sofitaire - Gardens and Banquets, Delhi Public School Shohbaghpora road, opposite Mahila police station, near Yohi hotel, Bhuvana, Udaipur (Raj.), 313001 to transact the Business as set out in the notice of the 20th AGM dated 04.09.2019 which has been dispatched to all the shareholders of the Company along with Annual Report 2018-19.

The Company is pleased to offer remote e-voting facility through National Securities Depository Limited (NSDL) to all the shareholders of the Company in respect of all the items to be transacted at 20th Annual General Meeting.
The Notice of 20th AGM along with instructions for e-voting and Annual Report are available on the following websites. Company's website: www.srghousing.com; BSE Limited: www.bseindia.com and NSDL: www.evoting.nsdl.com.
The details pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and the rules are given hereunder:
● A person whose name is recorded in the Register of Members/beneficial owners on Monday, 23rd September, 2019 (cut-off date) shall be entitled to vote through remote e-voting or through Ballot Paper at the AGM.
● Date of completion of dispatch of Notices: 05.09.2019.
● Date and time of commencement of remote e-voting: 25.09.2019 at 9:00 am.
● Date and time of end of remote e-voting and the e-voting shall not be allowed beyond 29.09.2019 at 05:00 pm.
● Any person who acquires shares of the Company and becomes member after the dispatch of the Notice of AGM and holds share on cut-off date, may obtain the User ID and password for e-voting by sending a request at evoting@nsdl.co.in or info@srghousing.com.
● Those shareholders, who do not opt to cast their vote through remote e-voting, may cast their vote through Ballot paper at the venue of the AGM. Shareholders who have casted their vote by remote e-voting prior to the AGM, may attend the AGM, however they are not entitled to vote again in the AGM.

In case of any queries, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and remote e-voting user manual for members available at the downloads section of the website www.evoting.nsdl.com or call on toll free no: 1800-222-990 or Contact NSDL at 022-2499454 or e-mail evoting@nsdl.co.in. For any queries/grievances, in relation to e-voting, Members may contact
Ms. Sunaina Nagar, Company Secretary Tel: 0294-2561882 and email info@srghousing.com at 321, S.M. Lodha Complex, Near Shastri Circle, Udaipur Rajasthan-313001.
Mis Ketan & Co. Chartered Accountant has been appointed as Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in fair and transparent manner.
Members who have not registered their e-mail address, so far, are requested to register their e-mail address with their Depository Participant (RTA).

Further Notice is hereby given pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures requirement) Regulations, 2015 that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from, 24th September, 2019 till 30th September, 2019 (both days inclusive) as Annual Book Closure for the purpose of Annual General Meeting.

For SRG Housing Finance Limited
Sd/-
Sunaina Nagar
Company Secretary
M.No: A40754
Date: 05.09.2019
Place: Udaipur

BHANDARI HOSIERY EXPORTS LIMITED
Regd. Office: Bhandari House, Village Maharban, Rahon Road, Ludhiana-143007 (Punjab) (India)
Ph.: +91-88726-16410, FAX : +91-161-2690394, E-mail: bhandari@bhandariexport.com
Web: www.bhandariexport.com Corp. Id No. / CIN: L17119P91993PLC013930

NOTICE OF 26th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING
NOTICE is hereby given that the 26th Annual General Meeting (AGM) of the Members of Company will be held on Saturday, the 28th day of September, 2019 at 9.10 A.M. at the Registered Office of the Company to transact the Ordinary and Special Business as set out in the Notice convening the 26th AGM.
The Notice of the 26th AGM and the Annual Report 2018-19 are available for download at the website of the Company i.e. www.bhandariexport.com and have been sent electronically to all members whose e-mail addresses are available and physically to those whose e-mail addresses are not available. The Company has completed dispatch of Notice of AGM and Annual Reports through permitted means on 03.09.2019. Members may also request a copy of the same by writing to Company Secretary at the Registered Office Address.
Notice is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Sunday, the 22nd September, 2019 to Saturday, the 28th September, 2019 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting of the Company and payment of dividend, if any, for both physical and electronic segments. Equity Dividend, if declared at the said meeting, will be paid to those members whose names appear on the Register of Members as on 21st of September, 2019.
Remote E-Voting: Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and pursuant to the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, the Company has provided remote e-voting facility to all members irrespective of holding shares in de-materialized mode or in physical mode. Members are further notified that they may cast their vote on all business to be conducted at the AGM through remote e-voting services provided by CDSL. The detailed procedure/instruction for e-voting have been sent along with the Notice and Annual Report.
The remote e-voting period commences on Wednesday, September 25, 2019 (9:00 a.m. IST) and ends on Friday, September 27, 2019 (5:00 p.m. IST). During this period Members of the Company, holding shares both in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date (record date) i.e. Saturday, September 21, 2019, may cast their vote by remote e-voting. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.
Any person, who acquires shares and becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM & holding shares as of the cut-off date i.e. Saturday, September 21, 2019, may obtain the login ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or cs@bhandariexport.com. However, if a person is already registered with CDSL for evoting then existing user ID and password can be used for casting the vote.
The facility for voting, either through electronic voting system or ballot or polling paper shall also be made available at the meeting and members attending the meeting who have not already cast their vote may exercise their vote through electronic voting system or ballot or polling paper at the AGM.
A member may participate in the AGM even after exercising his/her right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM.
A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the AGM.
For any queries or issues regarding e-voting, please refer to the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com. Members may address their queries/grievances, if any, to the Registrars and Share Transfer Agents of the Company - M/s. LINK INTIME INDIA PVT LTD., Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH 2, LSC, C-1 Block, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi-110058, EMAIL: DELHI@LINKINTIME.CO.IN, PHONES: 011-41410592-94, FAX: 011-41410591 or to Mr. Arpit Jain, Company Secretary at Registered Office or email at investor@bhandariexport.com or at contact No. 88720-16410

By Order of the Board
Sd/-
(Nitin Bhandari)
Chairman & Mg. Director (DIN 01385065)
Date : 05-09-2019
Place : Ludhiana

ETT LIMITED
CIN L22122DL1993PLC123728
Regd. Office: 17, Hemkunt Colony, New Delhi - 110 048
T & F: +91 11 4656 7575, E: secretarial@ettgroup.in, W: www.ettgroup.in

NOTICE
Notice is hereby given that the 26th Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on Monday, the 30th day of September, 2019 at 4:00 P.M. at the Jahanpanah Club, Mandakini Housing Scheme, Alaknanda, New Delhi - 110 019, to transact the business as set out in the AGM Notice which along with Annual Report for the year ended 31st March, 2019 have been sent to the members in the electronic mode whose e-mail addresses are registered with the Company/Depository Participant/ Registrar & Transfer Agent. Physical copies of the above documents have been sent to all other members at their registered addresses. The physical dispatch and email transmission of the Notice and Annual Report has been completed on September 2, 2019.
Further it is informed that pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, E-voting facility has been provided to the Members of the Company and the Members may cast their vote through e-voting facility during the period from September 27, 2019 at 10:00 a.m. to September 29, 2019 at 5:00 p.m. The E-voting facility will not be available beyond the above stated date and time. The notice of the AGM and the Annual Report are also available at the website of the Company i.e. www.ettgroup.in under the investor section. The cut-off date for the purpose of e-voting is September 23, 2019.
Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. September 23, 2019, may obtain the login ID and password by sending a request at secretarial@ettgroup.in. However, if you are already registered with CDSL for remote e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote.
In terms of Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, in order to enable its members who do not have access to e-voting facility, a Ballot Form has also been annexed to the Notice to send their assent or dissent in writing in respect of the resolutions as set forth in the notice. The facility for voting through ballot paper shall also be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting or by ballot paper prior to the AGM, shall be able to exercise their right at the meeting through ballot paper. The members, who opt to cast their votes through physical ballot forms, should ensure that physical ballot forms must reach at the registered office of the Company on or before the date of AGM.
The members who have cast their vote by remote e-voting or by ballot paper prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. In case of any queries relating to E-voting, please refer to Frequently Asked Question ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022-22723333 or write to Ms. Punithi Sharma, CFO & Company Secretary at secretarial@ettgroup.in or registered office address of the Company.
Further the register of members and share transfer books of the Company will remain closed from September 24, 2019 to September 30, 2019 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

For and on behalf of
ETT Ltd.
Sd/-
Punithi Sharma
CFO & Company Secretary
Date: September 5, 2019
Place: New Delhi

SHRI KALYAN HOLDINGS LIMITED
CIN: L67120R1993PLC061489
Regd office: B-19, Lal Bahadur Nagar, Malviya Nagar, Jaipur-302017 (Rajasthan)
Tel. No & Fax : 0141-4034062, 0141-2554270
Website: www.shrikalyan.com, E-Mail: shrikalyan25@hotmail.com

NOTICE
Pursuant to Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, 13th day of September, 2019 at 04:00 P.M at the Registered office of the Company situated at B-19, Lal Bahadur Nagar, Malviya Nagar, Jaipur-302017 (Rajasthan), inter alia, to consider and approve the un-audited financial results of the Company for the quarter ended on 30th June, 2019 and to take on record the Limited Review Report thereon. The details are also available on the website of the Company i.e. "www.shrikalyan.com" and on the website of stock exchange i.e. "www.bseindia.com".

For Shri Kalyan Holdings Limited
Sd/-
Shikha Agrawal
Place: Jaipur (Company Secretary & Compliance Officer) M. No.: A73704
Date: 05.09.2019

Form No. 5
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL
600/1, University Road, Near Hanuman Setu Mandir, Lucknow
(Areas of Jurisdiction: Part of Uttar Pradesh)

SUMMONS FOR FILING REPLY & APPEARANCE THROUGH PUBLICATION
O.A. No. 786/ 2019 Dated : 05.08.2019
(Summons to defendant under Section 19 (4) of The Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institution Act 1993 read with rules 12 and 13 of the Debts Recovery Tribunal Procedure Rules, 1993)
UNION BANK OF INDIA APPLICANT
VERSUS
SHRI ABHINAV CHAUHAN & OTHERS..... DEFENDANTS
To,
1. **SHRI ABHINAV CHAUHAN** S/o Shri Rajesh Chauhan, R/o House No. K-66, Pratap Vihar, Sector 12, Ghaziabad-201009
Second Address: R/o: Flat No. GF-1, Block J on Ground Floor at Plot No. J-251 Situated at G.M.P. Residential Colony, Sector 12, Pratap Vihar, Ghaziabad, U.P.-201009
2. **SMT. SHOBHA CHAUHAN** W/o Shri Abhinav Chauhan, R/o House No. K-66, Pratap Vihar, Sector 12, Ghaziabad-201009
Second Address: R/o: Flat No. GF-1, Block J on Ground Floor at Plot No. J-251 Situated at G.M.P. Residential Colony, Sector 12, Pratap Vihar, Ghaziabad, U.P.-201009
3. **SHRI RAJU YADAV** S/o Shri Prakash Yadav, R/o 304 B, Railway Colony, Arya Nagar, Ghaziabad, U.P.-201009

DEFENDANTS
In the above noted application, you are required to file reply/evidence in Paper Book form in two sets along with documents and affidavits (if any) personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the applicant or his counsel/ duly authorized agent after publication of the summons and thereafter to appear before the Tribunal on **06.11.2019 at 10:30 A.M.** failing which the application shall be heard and decided in your absence.
Registrar,
Debts Recovery Tribunal, Lucknow

JAY USHIN LIMITED
G1-48, GT KARNAL ROAD, INDUSTRIAL AREA, DELHI-110033
CIN-L52110DL1986PLC025118
TEL: 011-43147700
E-mail: julinvestors@jushinindia.com; Website: www.jpimgroup.co.in

NOTICE
Notice is hereby given that the 33rd Annual General Meeting (AGM) of the members of the company will be held on Monday, September 30, 2019 at 10:30 A.M IST at Satvik by Chhabra Farms, G-1, Pushpanjali Farms, Dwarka Link Road, Bijwasan, New Delhi-110037 to transact the business as set out in the notice convening the AGM.
In compliance with Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 and pursuant to provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the register of members and share transfer books of the company shall remain closed from Friday, September 20, 2019 to Monday, September 30, 2019 (both days inclusive) in connection with the Annual General Meeting. Notice is further given that in compliance with the Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulation 2015 and section 108 of the Companies Act, 2013 read with rule 20 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2014, the Company is pleased to provide its members the facility to exercise their right to vote at the AGM on the resolutions mentioned in the AGM notice by electronic means. The facility of casting votes using and electronic voting system from a place other than the venue of the AGM ("remote e-voting") is being provided to the members by the National Securities Depository Limited (NSDL). The notice of the meeting and instruction for remote e-voting has been sent to all members at their registered addresses.
The members are further informed that (a) the e-voting instructions forms an integral part of the notice of the Annual General Meeting which is also displayed at the Company's website http://jpimgroup.co.in/jay ushin.htm or https://www.evoting.nsdl.com; (b) A person whose name is appear in the register of members as on cut-off date i.e. Thursday, September 19, 2019 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the meeting; (c) the remote e-voting shall remain open from 9:00 A.M. on Thursday September 26, 2019 to 5:00 P.M. on Sunday, September 29, 2019 (d) the facility for voting shall also be made available at the Annual General Meeting and the members attending the AGM who have not cast their vote by remote E-Voting shall be able to vote at the AGM (e) In case of any queries/grievances pertaining to voting by electronic means, the members may contact the secretarial department at julinvestors@jushinindia.com and/or to M/s. RCMC Share Registry Private Limited, Registrar and Transfer Agents of the Company at investor.services@rcmcdelhi.com.

For Jay Ushin Limited
Sd/-
Amit Kithania
Sr. Manager Finance & Company Secretary
Date: September 05, 2019
Place: Gurugram

Bampsi Securities Limited
Reg. Off. 100A-Cycle Market, Jhandewalan Extn., New Delhi-110055 | Tel. No. 011-23556436
Email ID: bampsi@bampsi.com, www.bampsi.com, www.bampsi.com
CIN No: L65100DL1995PLC065028

NOTICE
NOTICE is hereby given that the 24th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Monday, September 30th, 2019 at 10:00 A.M. at the KHASRA NO 24/15, KAKROLA, NEW DELHI-110043 to transact such Ordinary and Special business as set out in the Notice convening the AGM.
Electronic copy of Notice of 24th AGM and instructions for remote e-voting, along with Attendance Slip and Proxy Form and Annual Report 2018-19, have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/ Depository participant(s) for communication purposes. For members who have not registered their email address, physical copies of the above documents have been sent at their registered address in the permitted mode.
As per Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 as amended by the Companies (Management and Administration) Rules, 2015 and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company is pleased to provide its Members the facility to exercise their vote on all resolutions proposed to be considered at the AGM by electronic means. The facility of casting the votes by the members using an electronic voting system from a place other than venue of AGM ("remote e-Voting") will be provided by National Securities Depository Limited (NSDL).
The details pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the said Rules as amended, are given here under:

- The Ordinary and the Special Business as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means.
 - Date and time of commencement of voting through electronic means: September 27, 2019 at 9:00 a.m.
 - Date and time of end of voting through electronic means: September 29, 2019 at 5:00 p.m.
 - Voting through electronic means shall not be allowed beyond 5:00 p.m on September 29, 2019
 - The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is September 23, 2019
 - Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. September 23, 2019 may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting then you can use your existing User ID and password for casting your vote.
 - The facility for voting through ballot paper/Polling Paper shall be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through ballot paper.
 - The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.
 - A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only i.e. on September 23, 2019 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM through ballot paper.
 - The Notice of AGM is displayed on the Website of Company on www.bampsi.com and also on the NSDL's website https://www.evoting.nsdl.com
 - In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and remote e-voting user manual for Members available at the downloads section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990
- The Registers of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from September 24, 2019 to September 30, 2019 (both days inclusive) for the purpose of the AGM

By Order of the Board
M/s Bampsi Securities Limited
Sd/-
Bhisham Kumar Gupta
Managing Director
Place: New Delhi
Date: 04.09.2019

20
VENUS Remedies Limited
CIN: L24232CH1999PLC069705
E-mail: compliance@venusremedies.com; www.venusremedies.com

NOTICE OF 30TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE
Notice is hereby given that:
(1) **Annual General Meeting (AGM)**
The 30th Annual General Meeting (AGM) of Venus Remedies Ltd. (Company) will be held at the Pelican Hotel, 25/8, Industrial Centre Cum Business Park, Phase-2, Chandigarh-160 002 on Monday, 30th September 2019 at 10.00 A. M. to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the notice of the AGM. Notice of AGM and Annual Report for 2018-19 have been sent to the members of the company. The same is also available on the Company's website i.e. www.venusremedies.com.
(2) **E-Voting:**
The members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 23rd September, 2019, may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of AGM through electronic voting system of Link Intime India Pvt. Ltd. (LIPL) through Insta Vote.
The e-voting shall commence on 27th September, 2019 at 9:00 a.m. and shall end on 29th September, 2019 at 5:00 p.m.
Members may note that the e-voting module shall be disabled by the LIPL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently. The facility for voting through ballot paper shall be made available at AGM. The members who have cast their vote by e-voting prior to AGM may also attend the AGM but shall not be allowed to vote again.
Any person who acquires shares of the Company after dispatch of notice of AGM but on or before the cut-off date i.e. 23rd September, 2019, can exercise their voting rights through e-voting by following the procedure of e-voting as mentioned in the notice of AGM.
The grievances connected with the e-voting may be addressed to Mr. Swapan Kumar Naskar, M/s Link Intime India Pvt Ltd., Ph-011-41410592-94.

(3) **Book Closure:**
The Register of Members and share transfer books of the Company will remain closed from 24th September, 2019 to 30th September, 2019 (both days inclusive).
By Order of Board of Directors
For Venus Remedies Limited
Sd/-
Company Secretary
VENUS REMEDIES LIMITED
Regd. Office: C.O 857, 2nd Floor, C.No. 10, N.A.C. Manimajara, Chandigarh
Corporate Office: 25/8, Industrial Area, Phase-1, Panchkula, Haryana-134113
CIN: L24232CH1999PLC069705, E-mail: compliance@venusremedies.com
Website: www.venusremedies.com, Listed on BSE and NSE: bseindia.com; nseindia.com

VOGUE TEXTILES LIMITED
CIN - L18101DL1992PLC049370
Regd. Office: A-206 Somdutt Chambers 1, 5 Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066

NOTICE OF 27TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that:
1. The 27th Annual General Meeting of Member of the Company will be held on Monday, September 30th, 2019 at 11 a.m. at Agarwal Bhavan, Road No. 10, East Punjabi Bagh, New Delhi-110026 to transact the business as set in the Notice of the Meeting dated August 27th, 2019.
2. Electronic copies of the Notice of AGM and annual report for 2019 have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s). The same are also available on the website of the Company at www.voguetextiles.com. Notice of AGM and Annual Report for 2019 have been sent to all other members at their registered address in the permitted mode. The dispatch of Notice of AGM has been completed on September 5th 2019.
3. Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date September 23rd, 2019 may cast their vote electronically on the business as set in the notice of the AGM through electronic voting system of National Securities Depository Limited ("NSDL") from a place other than venue of the AGM (e-voting). All the members are informed that:
i. The business as set in the Notice of the AGM may be transacted through voting by electronic means;
ii. The e-voting shall commence on Friday September 27th, 2019 (9:00 a.m.);
iii. The e-voting shall end on Sunday September 29th, 2019 (5:00 p.m.);
iv. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is Monday, September 23rd, 2019;
v. E-voting by electronic mode shall not be allowed beyond 5:00 p.m. September 29th, 2019;
4. The Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Monday, September 23rd, 2019 to Saturday, September 28th, 2019 for annual closing.
For Vogue Textiles Limited
Sd/-
Jaswant Kaur
Company Secretary
Place: New Delhi
Date: 06.09.2019

Bank of Baroda
Branch Office: Noida Complex
E-mail: VJNOID@Bankofbaroda.co.in

E AUCTION NOTICE
(1) Date of Inspection 05.10.2019, (2) Last Date of submission of Earnest Money Deposit (EMD) and KYC Documents 11.10.2019 before 4:00 PM (3) Date of E-Auction 14.10.2019
E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 6(2) & Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.
Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable properties mortgaged to the Secured Creditor, the symbolic possession of which has been taken by the Authorised Officer of Bank of Baroda, Noida Complex Branch Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is basis" on 14.10.2019, for recovery of Bank dues as per below mentioned details.

Name & Address of the Borrowers/ Guarantors/ Mortgagees	Description of Secured Assets with Name of Mortgagees (Owner of Properties)	Reserve Price Earnest Money Deposit Amount	Outstanding dues as per demand notice dttd 01-10-2018	Present Outstanding as on 31-07-2019	Date & Time of E-Auction
Borrower: 1. M/s G.K. Engineers Prop. Mr. Sandeep Kumar Tyagi S/o Mr. Manglu Lal Tyagi Address: 144B, A-3, Sector 71, Jagriti Apartment, Noida	Industrial Property located at No 169, Block Udyog Vihar extension, Sector ecotech-II, Greater Noida, G.B. Nagar in the name of Sh. Sandeep Kumar Tyagi S/o Mr. Manglu Lal Tyagi Property is bounded as under:- East: Plot No 170 West: Plot No 168 North: Road South: Other Plot	Reserve Price- Rs. 65.05 Lakhs Emd Amount - Rs 6.50 Lakhs	Rs. 4973695/-	Rs. 57,18,255/-	14-10-2019 12:00 Noon to 2:00 Pm

The EMD is to be deposited through RTGS/NEFT & IFSC Code to A/C No 71260113000011 (name of the account: THE AUTHORISED OFFICER-EAUCTION) IFSC Code UJBO0007126. The minimum increment amount shall be Rs 50,000/-
For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in Bank of Baroda Secured Creditor's website i.e. https://www.bankofbaroda.com/e-auction.htm and also portal (https://bob.auctiontiger.net&https://ibapi.in & contact the Authorised Officer Amit Tiwary, Chief Manager, Bank of Baroda, Noida Complex Branch, N-17, Sector 18, Noida, Contact no. 9175178968)
Sd/-
Place: Noida, Date: 02-09-2019
Authorised Officer, Bank of Barod

SARDA PROTEINS LIMITED
Regd. Office: B-536-537, Matsya Industrial Area, Alwar - 301030 (Rajasthan) CIN: L15142RJ1991PLC006353
Phone: +91-7737822222; E Mail: sardaproteins@yahoo.com Website: www.sardaproteins.com

NOTICE OF 28TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

The Notice is hereby given that:
1. The 28th Annual General Meeting (AGM) of Sarada Proteins Ltd. (Company) will be held at its Regd. Office at B-536-537, Matsya Industrial Area, Alwar - 301030 (Rajasthan) on Monday, 30th Day of September, 2019 at 02:00 P.M. to transact the Business as set out in the Notice of the AGM;
2. Electronic copies of the Notice of the AGM and the Annual Report for the F.Y. 2018-19 have been sent to all the members whose e-mail IDs are registered with the Registrar and Share Transfer Agent of the Company (Depository Participant(s)). Physical copies of the Notice of AGM and Annual Report for the F.Y. 2018-19 have been sent to all other members at their registered address in the permitted mode. The dispatch of Notice of the AGM and the Annual Report for the F.Y. 2018-19 has been completed upto 04th September, 2019.
3. Members holding shares either in physical form or in de-materialized form as on the cut-off date of 23rd September, 2019 may cast their vote electronically on the Business as set out in the Notice of AGM through electronic voting system of Link Intime India Private Limited (LIPL) from a place other than venue of the AGM; ("remote e-voting"). The detailed procedure/ instructions for remote e-voting are contained in the Notice of the AGM. All the members are informed that:
a) The Business as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means.
b) The remote e-voting shall commence on Thursday, September 26, 2019 at 09:00 A.M and shall end on Sunday, September 29, 2019 at 05:00 P.M.
c) The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is Monday, 23rd September, 2019.
d) Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. 23rd September, 2019, may obtain the User ID and password by sending a request at insta.vote@linkintime.co.in.
e) **Members may note that:**
i. the remote e-voting module shall be disabled by LIPL after the aforesaid date and time for voting and the e-voting shall not be allowed thereafter and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently;
ii. the facility for voting through ballot papers shall also be made available at the AGM;
iii. the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; and
iv. Only persons whose names are recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date shall be entitled to avail facility of remote e-voting or voting at the AGM through ballot paper.
f) The notice of AGM and Annual Report for the F.Y. 2018-19 is available on the Company's website www.sardaproteins.com and also on the LIPL's website https://instavote.linkintime.co.in; and
g) In case the shareholders have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and Instavote e-Voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in, under Help section or write an email to insta.vote@linkintime.co.in or Contact Mr. Swapan Kumar Naskar, Assistant Vice-President, Link Intime India Private Limited, (Registrars & Share Transfer Agents), 44 Community Centre, 2nd Floor Naraina Industrial Area Phase 1, New Delhi-110028, Tel: 011-4141 0592/93/94; E-mail: swapan@linkintime.co.in Members may also write to the Company Secretary at the E-mail id: sardaproteins@yahoo.com or at the Registered Office address.
4. The Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Tuesday, 24th September, 2019 to Monday, 30th September, 2019 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

FOR SARDA PROTEINS LIMITED
Sd/-
DEEPAK DATA
ADDITIONAL DIRECTOR
DIN: 01672415
DATE: SEPTEMBER 04, 2019
PLACE: ALWAR

BERVIN INVESTMENT & LEASING LIMITED
607, ROHIT HOUSE, 3, TOLSTOY MARG, NEW DELHI-110001
CIN : L65993DL1990PLC039397
Email Id:- secretary@bervin.com; Website: www.bervin.com

NOTICE OF THE 29th ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION
NOTICE is hereby given that the 29th Annual General Meeting (AGM) of the company is scheduled to be held on Monday, the 30th day of September, 2019 at 607, Rohit House, 3, Tolstoy Marg, New Delhi-110001 at 09.30 A.M. to transact the business, as set out in the Notice of AGM.

- The electronic transmission and physical dispatch of the Annual Report (including standalones and consolidated Financial Statements, Auditor's Report, Directors Report and Notice of the AGM) for the Financial year ended 31st March, 2019 were completed on 05th September, 2019. The same are also available on the Company's website www.bervin.com and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") viz. https://www.evoting.nsdl.com/.
- Pursuant to the provisions of Section 108 of Companies Act, 2013 (the "Act") read with rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the "Rules") and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Regulations"), the company is providing the facility to the Members to exercise their right to vote at the AGM by electronic means or polling paper and the business can be transacted through the remote e-voting platform provided by NSDL. The cut-off date for determining the eligibility of Members for remote e-voting and poll is **Monday, the 23rd September, 2019**. A person who is not a Member as on the cut-off date should treat this notice for information only. A User ID and password for casting the electronic vote has been sent to all the members.
- The remote e-voting will commence on **Friday, the 27th September, 2019 (9.00 am) and ends on Sunday, the 29th September, 2019 (5.00 pm)**. The remote e-voting module shall be disabled by "NSDL" thereafter. Once the vote is casted by the member, he/she shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again. The detailed procedure/instructions for e-voting are contained in the Notice of AGM.
- Any person, who acquires Shares and become Member of the Company after the dispatch of the notice and holds shares as on the cut-off date i.e. **Monday, the 23rd September, 2019** may obtain the login ID and password by sending


2 कंपनी समाचार

खबरों में रहे स्टॉक



शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स


ए समूह में सबसे अधिक चढ़ने वाला शेयर



₹ 260.50 पिछला बंद भाव
₹ 308.05 आज का बंद भाव
▲ 18.25%

कोचिन शिपवाई


कोचि मेट्रो रेलवे से मिला स्वीकार्यता पत्र



₹ 338.10 पिछला बंद भाव
₹ 343.10 आज का बंद भाव
▲ 1.48%

टाटा मोटर्स


अगस्त जेएलआर यूके की बिक्री 20.8 फीसदी घटी



₹ 109.50 पिछला बंद भाव
₹ 118.05 आज का बंद भाव
▲ 7.81%

बीईएमएल


सहायक इकाई में विनिवेश के लिए सरकार ने मंगाया अभिच्छि पत्र



₹ 795.50 पिछला बंद भाव
₹ 816.00 आज का बंद भाव
▲ 2.58%

आईसीआईसीआई बैंक

एसएंडपी वीएसई बैंकेक्स सूचकांक में सबसे अधिक गिरने वाला शेयर



₹ 397.50 पिछला बंद भाव
₹ 388.90 आज का बंद भाव
▼ 2.16%

संक्षेप में

पावर ग्रिड ने दिया 4,357 करोड़ रुपये लाभांश

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 1,307.90 करोड़ रुपये के अंतिम लाभांश की घोषणा की। इससे पहले, कंपनी ने 3,050.02 करोड़ रुपये का अंतिम लाभांश दिया था। कुल मिलाकर कंपनी ने 4,357.92 करोड़ रुपये का लाभांश दिया है। कंपनी के जारी बयान के अनुसार 2018-19 के लिए 698.81 करोड़ रुपये आरटीजीएस के जरिए अंतिम लाभांश के रूप में दिया गया है। कंपनी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक के श्रीकांत ने आरटीजीएस का विवरण बिजली मंत्री आर के सिंह को सौंपा। इस मौके पर बिजली सचिव सुभाष चंद्र गर्ग भी मौजूद थे।

भाषा

डॉलर के मुकाबले रुपया 28 पैसे बढ़ा

चीन और अमेरिका द्वारा व्यापार वार्ता फिर शुरू करने पर सहमत होने के बाद निवेशकों की धारणा में फिर से सुधार देखने को मिला है। यही वजह रही कि गुरुवार को कारोबार समाप्त पर डॉलर के मुकाबले रुपया 28 पैसे मजबूत होकर 71.84 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। विगत दो सत्रों में रुपया 55 पैसे चढ़ गया। अंतर बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में गुरुवार को कारोबार की शुरुआत में रुपया 71.87 पर मजबूत खुला और कारोबार की समाप्ति पर अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 28 पैसे की पर्याप्त तेजी के साथ 71.84 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इसमें 71.79 से 71.98 रुपये के दायरे में घट बढ़ हुई। इससे पहले बुधवार को रुपया 72.12 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था।

भाषा

ओवीएल से गैस खरीदने को तैयार था ईरान

ईरान ओएनजीसी विदेश लि. से फ्रंस की खाड़ी में स्थित फ्रजदा-बी फ़ोल्ड से उत्पादित गैस खरीदने को राजी हो गया था। लेकिन अमेरिका के ईरान पर फ्रंस से पाबंदी लगाने के कारण बातचीत अटक गई। कंपनी ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि ऑयल एंड गैस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी) की विदेश इकाई ओएनजीसी विदेश लि. ने 2008 में फ्रंस की खाड़ी में फ्रंस-अपतटीय खोज ब्लॉक में उल्लेखनीय मात्रा में प्राकृतिक गैस को खोज की थी।

भाषा

एलेरिस अधिग्रहण पर अडिग है नोवेलिस

अमेरिकी कानून मंत्रालय की चुनौती के बावजूद अधिग्रहण पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध


अदिति दिवेकर मुंबई, 5 सितंबर

आदित्य बिड़ला ग्रुप की कंपनी हिंडालको इंडस्ट्रीज को आज एक अन्य नियामकीय चुनौती का सामना करना पड़ा है। इस बार एलेरिस अधिग्रहण को लेकर अमेरिकी कानून मंत्रालय (डीओजे) के एक विपरीत फैसले से उसकी चिंता बढ़ा दी है।

अमेरिकी कानून मंत्रालय ने हिंडालको की अमेरिकी सहायक कंपनी नोवेलिस द्वारा अधिग्रहण को रोकने के लिए प्रतिस्पर्धा रोधी मुकदमा दर्ज किया है। इस मुकदमे में इसका जिज्ञा किया गया है कि यदि यह अधिग्रहण सौदा हुआ तो इससे रॉलड एल्यूमीनियम शीट के लिए उत्तर अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा का संकट गहरा जाएगा। इसकी प्रतिक्रिया में नोवेलिस ने कहा है कि भले ही डीओजे मुकदमे ने इस सौदे की राह में समस्या पैदा की है, लेकिन वह एलेरिस कॉर्पोरेशन का अधिग्रहण पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

एल्यूमीनियम रोलिंग एवं रिसाइलिंग कंपनी नोवेलिस ने डीओजे की चुनौती का सख्ती के साथ बचाव करने की योजना बनाई है। नोवेलिस ने एक बयान में कहा है कि डीओजे का

अदालती फैसले से बढ़ी चिंता



■ अमेरिकी सरकार की संस्था सीएफआई ने चीन की एल्यूमीनियम निर्माता झोंगवांग से एलेरिस के लिए अधिग्रहण प्रस्ताव को खारिज कर दिया था

■ नोवेलिस-एलेरिस सौदे को अमेरिका, यूरोपीय संघ और चीन के सरकारी प्राधिकारणों द्वारा मंजूरी दिए जाने की जरूरत है

फैसला अनुचित है। एमके रिसर्च ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है, 'यदि यह अधिग्रहण बीच में अटका तो इसे देखते हुए हिंडालको के लिए यह नकारात्मक होगा कि एयरोस्पेस और वाहन कलपुर्जा शीट्स एलेरिस के दो सबसे बड़े आकर्षण हैं।' जुलाई 2018 में, नोवेलिस ने एलेरिस कॉर्पोरेशन का लगभग 2.6 अरब डॉलर

(कर्ज भी शामिल) में अधिग्रहण करने के लिए एक समझौते की घोषणा की थी। एलेरिस रॉलड एल्यूमीनियम उत्पादों की प्रमुख वैश्विक आपूर्तिकर्ता है। चालू वर्ष 2019 की दूसरी तिमाही में, एलेरिस ने 232,000 टन धातु भेजी, जिससे एयरोस्पेस व्यवसाय 20 प्रतिशत बढ़ा और वाहन कलपुर्जा शीट व्यवसाय

अशोक लीलैंड 6 से 11 सितंबर तक बंद रखेगी एक संयंत्र

बीएस संवाददाता चेन्नई, 5 सितंबर

मंदी के कारण अगस्त में मध्यम व भारी वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री 70 फीसदी घटने के बाद अशोक लीलैंड ने एनोर संयंत्र में पांच दिन कामकाज बंद रखने का फैसला लिया है, जो 6 सितंबर से शुरू होगा (रविवार को छोड़कर)। बाजार में सुस्त के चलते अगस्त में कंपनी ने करीब 10 दिन उत्पादन बंद रखा। इस बारे में अशोक लीलैंड के प्रवक्ता से टिप्पणी नहीं मिल पाई।

कंपनी ने कर्मचारियों को जारी नोटिस में कहा है कि संयंत्र में इस हफ्ते 6 और 7 सितंबर को काम नहीं होगा और अगले हफ्ते 10 और 11 सितंबर को कामकाज बंद रहेगा। 9 सितंबर को पहले ही कामकाज बंद रखने का ऐलान हो चुका है। इसका मतलब यह हुआ कि संयंत्र 11 सितंबर तक बंद रहेगा।

वाणिज्यिक वाहन बाजार में सुस्ती और बिक्री में गिरावट जारी रहने की वजह से यह कदम उठाया गया है। कंपनी ने कर्मचारियों से कहा, कंपनी के हितों को सुरक्षित रखने के लिए ऐसे उपचारात्मक कदम उठाने की जरूरत पैदा हुआ है।

सूत्रों ने कहा कि इस महीने कुछ और दिन संयंत्र में उत्पादन बंद रह सकता है। सुस्त बाजार के कारण अगस्त में करीब 10 दिन उत्पादन नहीं हुआ।

मैकलॉयड रसेल के निदेशक के इस्तीफे पर उठाए सवाल

समी मोडक मुंबई, 5 सितंबर

मैकलॉयड रसेल इंडिया के कई स्वतंत्र निदेशकों ने स्वास्थ्य व बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया है, लेकिन वे अन्य कंपनियों के निदेशक मंडल में बने हुए हैं। इस प्रवृत्ति पर कॉर्पोरेट गवर्नंस फर्म स्ट्रेकहोल्डर्स एम्पावरमेंट सर्विसेस (एसईएस) को सही नहीं बताया है। फर्म ने उवतंत्र निदेशकों के लिए और जवाबदेही की बात कही है।

चाय कंपनी के निदेशक मंडल से करीब आधा दर्जन निदेशकों ने बढ़ती उम्र, स्वास्थ्य समस्या और कमजोर सेहत का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है। ये निदेशक हालांकि अन्य कंपनियों के निदेशक मंडल में बने हुए हैं और इनमें से कुछ ने नया काम हाथ में लिया है। गवर्नंस फर्म एसईएस ने एक नोट में कहा है, स्वतंत्र निदेशकों के इस्तीफे के संबंध में फर्म का मानना है कि अन्य कंपनियों के निदेशक मंडल में बने रहना और अपने सामान्य बरकेट को भरपाई के लिए नई कंपनियों से जुड़ना स्पष्ट तौर पर शॉपिंग फॉर कंपनीज का मामला बताया है। एसईएस ने कहा कि कुछ निदेशक व्यक्तिगत फायदे के लिए मुश्किल में फंसी कंपनियों से निकलकर बेहतर कंपनी का दामन थाम रहे हैं।

ये निदेशक शोपरधारकों के लिए अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में नाकाम रहे हैं। पिछले एक साल में मैकलॉयड रसेल का शेयर 90 फीसदी से ज्यादा टूटा है।

बीएस बातचीत

‘सभी प्रमुख अर्थव्यवस्था अभी मंदी के चपेट में’

वाहन क्षेत्र में मंदी के बीच टीवीएस मोटर के चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन का मानना है कि जनवरी तक उसमें सुधार दिखेगा। बिजनेस स्टैंडर्ड से बातचीत में उन्होंने माना कि वाहन क्षेत्र पिछले तीन दशक के सबसे खराब दौर से गुजर रहा है लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि बुनियादी ढांचा में निवेश बढ़ाने की जरूरत है और सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए तमाम उपाय कर रही है। पेश हैं मुख्य अंश:



सरकारी उपायों से वाहन क्षेत्र में सुधार को लेकर आप कितने आशाबुद्धि हैं?

हमें यह अवश्य देखना चाहिए कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत में क्या हो रहा है। दुनिया का हरेक बाजार मंदी के चपेट में है। चीन व्यापार गंग के साथ मंदी के चपेट में जा रहा है। हालांकि वह इसके बारे में बात नहीं कर रहा लेकिन वास्तव में विनिर्माण में सुस्ती दिख रही है। अमेरिकी मंदी के चपेट में है जबकि फ्रांस और जर्मनी में शुन्य वृद्धि है। लेकिन हम इस परिस्थिति में भी कम से कम बढ़ रहे हैं।

कमजोर वृद्धि के कारण विनिर्मित उत्पादों की मांग में थोड़ी कमी दिख सकती है जिसे हम भारत में आस दिख रहे हैं। सरकार इस समस्या से भलीभांति अवगत है। उन्होंने उद्योग के साथ काफी विचार-विमर्श किया है और मैं समझता हूँ कि मौद्रिक उपलब्धता बढ़ाने के लिए कई घोषणाएं की गई हैं, बैंकों में पूंजी डाली गई है, बैंकों का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है और इसके अलावा कई अन्य उपाय किए जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि एक और घोषणा की जा सकती है जो रियल एस्टेट और

रियल एस्टेट के लिए जीएसटी से संबंधित होगा। वृद्धि को पट्टी पर लाने के लिए हमें बुनियादी ढांचा में निवेश बढ़ाने के उपाय करने की जरूरत है। हमें मांग की वापसी का इंतजार नहीं कर सकते। सड़क, ग्रामीण आवास, शहरी बुनियादी ढांचा जैसे राज्य परिवहन बसें, लो फ्लोर बसें की खरीदारी और करीब 10,000 बसें आपूर्ति के लिए तैयार हैं। मैं समझता हूँ कि अर्थव्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए कुछ उपाय करने की जरूरत है जिसके बिना तेजी नहीं आएगी और मुझे विश्वास है

कि सरकार ऐसा करेगी। यहां तक कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत 10 प्रमुख शहरों में जल पुनःकरण में काफी संभावनाएं हैं जिससे सीमेंट, निर्माण एवं रोजगार क्षेत्र में काफी मांग पैदा होगी। दुनिया की सभी प्रमुख अर्थव्यवस्था मंदी के चपेट में हैं। आज के दौर में आप दुनिया की वास्तविकताओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते।

क्या आपको लगता है कि ग्रामीण बाजार की मांग में सुधार होगा? ग्रामीण आवास और ग्रामीण सड़क परियोजनाओं से ग्रामीण रोजगार को जबरदस्त रफ्तार मिल सकती है।

क्या नए मॉडलों को उतारे जाने से वाहन क्षेत्र में ग्राहकों का उत्साह बढ़ सकता है? नए मॉडलों को उतारे जाने से हमेशा ग्राहक रोमांचित होते हैं लेकिन बुनियादी मांग बरकरार रहनी चाहिए। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जनवरी से मार्च तिमाही तक मांग

में कुछ सुधार दिखनी चाहिए। सरकार व्यवस्था को बेहतर बना रही है, बैंकों में पूंजी डाल रही है। लेकिन इसमें समय लगेगा क्योंकि पिछले कुछ समय से हम कमजोर अथवा नकारात्मक वृद्धि में हैं।

उद्योग में कब तक जीएसटी के लिए जीएसटी के बारे में आपका क्या नजरिया है? दोपहिया वाहनों पर 28 फीसदी जीएसटी लगाया गया है जो महंगी लक्जरी कारों पर लगाई गई जीएसटी के बराबर है। मांग में सुधार के लिए जीएसटी दरों में कटौती आवश्यक है। जब कम की जीएसटी दर में कटौती की जाएगी तो बाजार में विस्तार होगा।

हम जनवरी तक सुधार होने की उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अगस्त के अंत में उपायों की घोषणा की है। इसके परिणाम दिखने में कम से कम तीन-चार महहिने लगेंगे।

वाहन उद्योग के सम्मेलन पर भी मंदी

अरिंदम मजूमदार और शैली सेठ मोहिले नई दिल्ली, 5 सितंबर

भारतीय वाहन उद्योग के लिए एक ही छत के नीचे इकट्ठा होने और 'नए युग' के बारे में चर्चा करने का यह बहुत असामान्य समय है। लेकिन सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरर्स (सायम) के 59वें वार्षिक सम्मेलन का यही विषय था - वाहन उद्योग के नए युग में जाना। सम्मेलन में वाहन, इंजन और विभिन्न पुर्जों का निर्माण करने वाले क्षेत्रों के 1,300 से अधिक प्रतिनिधि उपस्थिति

सायम के 59वें वार्षिक सम्मेलन में वाहन, इंजन और विभिन्न पुर्जों का निर्माण करने वाले क्षेत्रों के 1,300 से अधिक प्रतिनिधि उपस्थिति

सायम के अनुसार मंदी के कारण 15,000 से अधिक ठेका श्रमिकों को पहले ही गंवानी पड़ी है नौकरी धरणा कमजोर होने और नकदी की कमी की वजह से वाहन उद्योग की बिक्री में गिरावट आ रही है। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार द्वारा हालिया घोषित उपायों से वाहन उद्योग सतर्कता से मौजूदा स्थिति से उबर सकता है। उन्होंने कहा वास्तव में यह एक नाटकीय तरीका है और इसे पूरा करें। भारत के वाहन उद्योग के विकास की कहानी समाप्त होने वाली है। बाद में अलग से बातचीत में अपने बयान को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने पहली तिमाही में प्रकाशित आंकड़े देखे हैं। उसके बाद जुलाई और अगस्त के आंकड़े भी देखे हैं।



मैंने यह नहीं कहा कि कहानी समाप्त हो गई है। यह कहा है कि समाप्त होने वाली है उन्होंने कहा कि वाहन विनिर्माता इस चुनौती से निपटने के लिए उत्पादन को मांग से समायोजित कर रहे हैं। इस साल के दौरान ब्याँक क्लोजर एक प्रमुख शब्द बन चुका है। सरकार के हालिया कदमों का स्वागत करते हुए बुश्चेक ने उम्मीद जताई कि चीजें बदलेंगी लेकिन आगे का रास्ता काफी चुनौतीपूर्ण है। महिंद्रा एंड महिंद्रा (एम एंड एम) के प्रबंध निदेशक पवन गायनका ने कहा कि मुझे इस बारे में मत पूछो कि पूरे साल की बिक्री कैसी रहेगी। मौजूदा परिस्थितियों में मैं आपको यह भी नहीं बता सकता कि दस दिनों के बाद चीजें कैसी होने वाली हैं। उन्होंने कहा कि अगर वित्तीयारी सीजन में बिक्री जोर नहीं पकड़ती है तो कंपनियों पर और अधिक श्रमिकों को हटाने का दबाव बनेगा।

सायम के अनुसार 15,000 से अधिक अनुबंध श्रमिकों ने पहले ही मंदी के कारण अपनी नौकरी गंवा दी है क्योंकि कंपनियों ने उत्पादन को मंदी के कारण अपनी नौकरी गंवा दी है क्योंकि कंपनियों ने उत्पादन को मंदी के कारण अपनी नौकरी गंवा दी है। गायनका ने कहा कि उद्योग जो कुछ भी कर सकता है, उसने वह किया है। हम मांग को पुनर्जीवित नहीं कर सके हैं। अब सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

अब ब्रॉडबैंड में जियो और एयरटेल की जंग

पृष्ठ 1 का शेष...

रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के निदेशक आकाश अंबानी ने कहा, 'हम जो भी करते हैं, उसके केंद्र में हमेशा ग्राहक रहते हैं। जियोफाइबर को इसी सोच के साथ डिजाइन किया गया है। जियोफाइबर की शुरुआत एक नई और उत्साहजनक यात्रा की शुरुआत है।'

एयरटेल एक्सट्रीम में टीवी चैनलों की सुविधा दी गई है लेकिन जियोफाइबर में यह सुविधा नहीं है। एयरटेल में ओटीटी ऐप की सुविधा वाला प्लान 1,099 रुपये से शुरू हो रहा है जबकि जियो 1,299 रुपये के प्लान में ओटीटी की सालाना सदस्यता शामिल है। इसी तरह जियो का तीन महीने तक ओटीटी प्लेटफॉर्म की सुविधा वाला प्लान 849 रुपये का है। एक्सट्रीम बॉक्स जैसी कई सेवाएं दे रही है। साथ ही ओटीटी को सपोर्ट करता है जबकि इसमें इनबिल्ट क्रोमकास्ट है। इसी तरह एक्सट्रीम बॉक्स में एयरटेल एक्सट्रीम ऐप, नेटफ्लिक्स, एमेज़ॉन प्राइम वीडियो और यूट्यूब पहले से इनस्टॉल होने हैं।

विश्लेषकों का कहना है कि दोनों कंपनियों के प्लान की तुलना नहीं की जा सकती है क्योंकि जियो लैंडलाइन कनेक्शन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, राउटर और सेटटॉप बॉक्स जैसी कई सेवाएं दे रही है। गायनका ने कहा कि उद्योग जो कुछ भी कर सकता है, उसने वह किया है। हम मांग को पुनर्जीवित नहीं कर सके हैं। अब सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

कोई हवाई अधिभार नहीं